



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1977/आषाढ़ 11, 1899

No. 234] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1977/ASADHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi the 2nd July, 1977

**G S.R. 474(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation No G S R 223(E), dated 7th May, 1977, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby prescribes, in addition to the limits of usage of refined vegetable oils specified in sub-clause (a) of clause (2) of paragraph 2 of the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, the limits specified in column (3) of the Table below as the minimum limit of usage of the vegetable oils specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in the manufacture of vegetable oil product (other than product manufactured for non-edible industrial use) in the regions specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table for the period specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

(1445)

THE TABLE

Name of Vegetable Oil	Region	Limit of usage (per cent by weight of vegetable oil product)	Period
(1)	(2)	(3)	(4)
Imported vegetable oils	All Regions	90	Month to month basis

This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

[No 9-VP(1)/76-Vol-II]

T. BALAKRISHNAN,

Vegetable Oil Products Controller for India.

### नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 174 (अ) — वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 4 ख के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के आदेश सा० सा० का० नि० 223 (अ) दिनांक 7 मई, 1977 का अधिष्ठात करते हुए, भारत वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक इस आदेश द्वारा वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश 1975 की प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (2) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेलों के उपयोग की सीमाओं के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेलों के, वनस्पति तेल उत्पादों के विनिर्माण में (उन उत्पादों से भिन्न जो आखाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित किए जाएं) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रदेशों में उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि में उपयोग के लिए, न्यूनतम सीमाओं के रूप में विहित करत है।

## सारणी

वनस्पति तेल का नाम	प्रदेश	उपयोग की सीमा (वन- स्पति तेल उत्पाद के भार का प्रतिशत)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
आयातित वनस्पति तेल	सभी प्रदेश	90	मासिक आधार पर

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[म० 9-वी० पी० (1) 76-वाल्यूम-II]

टी० बालकृष्णन्,

भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

